



Webinar 2

International Webinar Series on Research and Technological Advancements in Biomedical and Healthcare Sector



Organized By

Centre of Excellence in Health Care Technologies and Informatics (CEHTI)

Department of Biotechnology and Bioinformatics

Jaypee University of Information Technology, Wagnaghat, Solan, HP, India



Webinar 2: Flexible Sensors for Biomedical Applications

Speaker: Prof. Yosi Shacham Diamand

Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

Date: September 08, 2020

Time: 12:30 PM IST (Indian Standard Time)

YouTube Link of Webinar: <https://youtu.be/OW46YoORTas>

Prof. Sudhir Kumar

Head, Department of Biotechnology
and Bioinformatics

Dr. Tiratha Raj Singh

Coordinator CEHTI
Convener

Dr. Ragini Raj Singh

Member CEHTI
Coordinator

Dr. Nishant Jain

Member CEHTI
Coordinator

Press Release

EDUCATION NOTES

WEBINAR ON BIOINFORMATICS ADVANCEMENT



In a series of webinars being conducted by the Centre of Excellence in Health Care Technologies and Informatics (CEHTI), Department of Biotechnology and Bioinformatics, Jaypee University of Information Technology, Waknaghat, a discussion on research and technological advancements in biomedical and healthcare sector was held. It attended by participants from all over the world, including Prof Yosi Shacham Diamand, an eminent scientist and researcher from Tel Aviv University. The topic of the discussion was 'Flexible Sensors for Biomedical Applications'. Dr Tiratha Raj Singh was the convener. The CEHTI aims to address concerns about the recent developments in healthcare, along with its coordination with the rapidly developing informatics. The university, through this centre, seeks to improve the scientific and practical research in health informatics.

The Tribune, 14th Sept., 2020

जेपी यूनिवर्सिटी वाकनाघाट में अंतरराष्ट्रीय वेबिनार

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- सोलज

जेपी यूनिवर्सिटी वाकनाघाट में एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार श्रृंखला का दूसरा वेबिनार, टेलिविडियो यूनिवर्सिटी, इजराइल के प्रख्यात वैज्ञानिक और कुशल शोधकर्ता प्रो. योसेफ शचम-लोमांड द्वारा लचीले सेंसर के लिए बायोमेडिकल एप्लिकेशन विषय पर आयोजित किया गया है। यह वेबिनार अनुसंधान आधारित था, बहुत जानकारीपूर्ण था और बायोमेडिकल एप्लिकेशन के लिए लचीले सेंसर के वर्तमान परिदृश्य पर कला की जानकारी प्रस्तुत करता है। प्रश्न उत्तर सत्र बहुत ही संपादित था। संयोजक के रूप में डा. तीरथ राज सिंह द्वारा संयोजक, डा. रागिनी राज



सिंह और डा. निशांत जैन द्वारा इस वेबिनार श्रृंखला का संचालन किया जा रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में न केवल भारत के प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया है, बल्कि प्रतिभागी अपने-अपने स्थानों पर बैठे विश्व भर से आए थे। विदेश से मुख्य रूप से भागीदारी में नीदरलैंड, इजरायल, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, भूटान, यूएई, हांगकांग,

पोलैंड, कनाडा, नाइजीरिया, यूक्रेन, नेपाल, अल्जीरिया, मलेशिया आदि शामिल हैं। अब तक इस वेबिनार श्रृंखला के लिए पंजीकृत 650 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस वेबिनार को सीईएचटीआई द्वारा इस श्रृंखला के आगामी वेबिनार में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों और प्रतिभागियों द्वारा बहुत पसंद किया गया। सीईएचटीआई का

● बायोमेडिकल एप्लिकेशन विषय पर आयोजित हुआ कार्यक्रम

उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में हाल के घटनाक्रमों के बारे में चिंता करना है और साथ ही साथ तेजी से विकासशील सूचना विज्ञान के साथ समन्वय करना है। विश्वविद्यालय इस केंद्र के माध्यम से वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और व्यावहारिक अनुसंधान को बेहतर बनाने और एक ज्ञान समाज के निर्माण में इसका उपयोग करने का प्रयास करता है। यह रचनात्मकता और उत्कृष्टता के माध्यम से स्वास्थ्य जानकारी में वैश्विक नेतृत्व को उम्मीद भी करता है।